



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2011 (श्रावण 29, 1933)

No.34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2011 (SRAVANA 29, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 3/48/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री एस.पी.एस. वर्मा, भापुसे  
(हि.प्र. 95) को दिनांक 25 जुलाई, 2011 पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि या  
उनकी अधिवर्षिता जो 31.12.2014 है तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि  
की सामान्य शर्तें एवं विनियम के अनुसार इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय  
गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

धनी राम

सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. ओ.दो. 5220/2011-डी.-4-कार्मिक--श्री एस. के. पात्रा, उप  
कमाण्डेंट (ईरला-5220), 141 बटालियन, केरिपुबल, का सरकारी सेवा

से त्याग-पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम  
स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 12/07/2011  
(अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से  
दिनांक 12/07/2011 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

संजीव बून्डिया

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. ओ.दो-1194/74-कार्मिक--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति  
संबंधी नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री टी. चन्द्रशेखरन,  
पुलिस महानिरीक्षक (ट्रेनिंग), महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,  
नई दिल्ली (ईरला-1289) ने दिनांक 01/08/2011 (पूर्वाह्न) से अपना  
पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 01/08/2011  
(पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

संजीव बून्डिया

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो-6571/2011-कार्मिक (डी.ए. 5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दिनांक 2/03/2011 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री अनुराग तिवारी, सहायक कमाण्डेंट (आई.आर.एल.ए.-6571) 201 बटालियन कोबरा, के. रि. पु. बल, ने दिनांक 30/06/2011 (अपराह्न) को अपने पद

से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनकी नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30/06/2011 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

संजीव दून्डिया  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ई-15014/1/2011/कार्मिक-2/भाग-3/1836--सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंटों के संबंध में परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	सहायक कमाण्डेंट पद पर पदोन्नति की तारीख	परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की तारीख	स्थाईकरण की तिथि	इकाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	सर्वश्री भासकर कुमार	स.क./कार्य	05.07.08	04.07.10	05.07.10	आरएचएसटीटीपी रिहन्द
2.	धनंजय शुक्ला	वही	05.07.08	04.07.10	05.07.10	7वीं आ. बा. किस्तवार
3.	सुरेन्द्र कुमार	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	बीएसएल बोकारो
4.	सन्तोश कुमार सुमन	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एसईसीएल बिलासपुर
5.	विवेन्द्र प्रताप सिंह	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	डब्ल्यूसीएल छिन्दवाडा
6.	राहुल कुमार	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	आरएपीएस कोटा
7.	शकराराव वीरेडडी	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एनएपीएस नरोरा
8.	मनमोहन सिंह यादव	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	डीईई कलपक्कम
9.	पी. डी. गाईसुंग	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एनएफसी हैदराबाद
10.	बाबु लाल	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एनकेएन्ड पीपरवार
11.	शेखर रमोला	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	आरएसपी राऊरकेला
12.	सतेन्द्र कुमार झा	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एनएलसी नेवेली
13.	आशु सिंधल	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	बीएचईएल हैदराबाद
14.	मनजीत सिंह	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	टीपीटी तुतीकोरिन
15.	हरेन्द्र नारायण	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	सीएचपीटी चेन्नई

1	2	3	4	5	6	7
16.	अरविन्द कुमार सिंह	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	जेएनपीटी शेवा
17.	बालाजी निलेय धनश्याम	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	बीसीसीएल धनबाद
18.	अजय सिंह	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एनटीपीसी कनीहा
19.	नितिन कुमार त्यागी	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	ओआईएल दुलियाजान
20.	सत्यबीर सिंह असवाल	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	डीएसपी दुर्गापुर
21.	जोग राज	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	ईसीएल शीतलपुर
22.	एस के पासवान	वही	18.04.09	17.04.11	18.04.11	एसबीएसएस सालाकाटी
23.	बिजेन्द्र सिंह पटवाल	वही	29.05.06	28.05.08	---	एससजी पटना (प्रतिनियुक्ति पर सीईआईबी दिल्ली)
24.	प्रभात रंजन मिश्रा	वही	12.10.08	11.10.10	12.10.10	एससजी तिरुपति
25.	मुकेश कुमार	स.क./अग्नि	02.02.09	01.02.11	---	बीईएल भिलाई
26.	ऐ के अरोरा	स.क./जेएओ	20.04.09	19.04.11	---	समुह मुख्यालय गुवाहटी
27.	नागेन्द्र देवरासी	स.क./कार्य	05.07.08	04.01.11	05.01.11	एसडीएससी सार सेन्टर
28.	खिलाडे सतेन्द्र पी	वही	12.10.08	11.04.11	12.04.11	डीएम बटालियन अरकोनम
29.	ई गुनाशेखरन	स.क./जेएओ	03.03.08	02.03.11	---	एनएलसी नेवेली

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-15014/1/2011/कार्मिक-2/भाग-3/1838--सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री सुनील लकरा, सहायक कमान्डेन्ट/जेएओ, जो कि दिनांक 01.05.2007 को सहायक कमान्डेन्ट/जेएओ के पद में पदोन्नति हुआ था के संबंध में दिनांक 30.04.2010 परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

प्रतिनियुक्ति पर है, को एतद्द्वारा 'अगले निचले नियम' के तहत पे बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- प्लेस ग्रेड पे रुपये 5,400/- के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमान्डेन्ट (जे ए ओ) के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	पद	नाम	अगले निचले नियम के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि
01	निरीक्षक (अनु.)	श्री ए के बन्दोपाध्याय	20.06.2011 (पूर्वाह्न)
02	निरीक्षक (आशु.)	श्री विनोद कुमार शर्मा	18.06.2011 (पूर्वाह्न)

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. ई-31013(3)/2/2011/कार्मिक-II/1845--निम्नलिखित निरीक्षक (अनुसूचित/आशुलिपि) जो वर्तमान में एन एस जी नई दिल्ली में

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

ओड़िशा, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि.-गुप'ख'/544--दिनांक 15.07.2011 के का. आ.ग. सं. 258 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री अबनि कान्त पात्र, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 15.07.2011 (पूर्वाह्न) से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं उनके वरीयतों के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (गुप'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी.-2) रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर प्रधान महालेखाकार, सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है। दिनांक 15.07.2011 के का.आ.ग. सं. 258 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

ए. के. बिद  
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 3 अगस्त 2011

सं. ए-19024/5/2011-प्र. 1--पे बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) + ग्रेड पे रु. 4,200/- में वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति होने पर श्री संजय तिवारी, कनिष्ठ रसायनज्ञ को 12 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर में वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एम. एल. सिक्का  
अवर सचिव

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121 001, दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. 2-12/2007-प्रशा. प्रथम--इस निदेशालय के दिनांक 07.06.2011 की अधिसूचना संख्या 2-12/2007 प्रशा. प्रथम में क्रम संख्या 03 पर की गई प्रविष्टि में इस प्रकार संशोधन किया जाए :--

डा. विष्णु दत्त निगम 17.02.2011

दिलीप राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 21 जुलाई 2011

संदर्भ : पीडी/7(13)/2011/भर्ती-IV/एसओ/सी/ईटीजी/4983--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों

ग्रेड एसबी पे बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड सी के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में, उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाए गए तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री कुंजीलाल बुद्धजी बल्लारे	01.07.2010
2.	श्री रूपेश कुमार सिंह	01.07.2010
3.	श्री विनायक रमेश सोनार	01.07.2010
4.	श्री अजित नारायण शिरसाट	01.07.2010
5.	श्री बसन्त कुमार दास	01.07.2010
6.	श्री चेटियामपरम्बिल शंकरन दिलीप	01.07.2010
7.	श्रीमती मनिषा रवींद्र लोखंडे	01.07.2010
8.	श्री नितिन मारुती सिनलकर	01.07.2010
9.	श्री अर्जुन सरकार	01.07.2010
10.	श्री विठुरी नरसिंहनाथ	01.07.2010
11.	श्रीमती डिम्पल वर्मा	02.08.2010
12.	श्री नलिनी रंजन मिश्र	01.07.2010
13.	श्री रामसुब्बु मुथलाप्पन	01.07.2010
14.	श्रीमती एस. प्रेमलता	01.07.2010
15.	श्री सिक्कुमार के. एस.	01.07.2010
16.	श्री वेंकटेशन सी.	01.07.2010
17.	श्री अश्वनि कुमार शर्मा	01.07.2010
18.	श्री संजय कुमार पाल	02.07.2010
19.	श्री इ. मुथु	01.07.2010
20.	श्री अभय वसंत पाटील	01.07.2010
21.	श्री भुतराजन मुथैय्या	01.07.2010
22.	श्री बालू नारायण शिंदे	01.07.2010
23.	श्री अनिल कुमार अहिरवार	01.07.2010
24.	श्रीमती प्रियंका जगदीश रेड्डी	01.07.2010
25.	श्रीमती सुमती एल्लप्पन	01.07.2010
26.	श्री अजय कुमार	01.07.2010
27.	श्री शिवाजी रामदास शेंडगे	08.07.2010

1	2	3
28.	श्री पंकज शंकरराव दमके	01.07.2010
29.	श्री अजय कुमार गौंग्यान	01.07.2010
30.	श्रीमती हेमांगी विजयकुमार गायकवाड	01.07.2010
31.	श्री नीरूकोंड संकरराव	01.07.2010
32.	कुमारी विद्या श्रीधर थोरात	01.07.2010
33.	श्री सिनू चन्द्रन	01.07.2010

शैलजा प्रकासम  
उप-स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/7(13)/2011/भर्ती-IV/एसओ(सी)/ईटीजी/4984--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तकनीकी अधिकारी ग्रेड सी के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में, 1 जुलाई, 2010 के पूर्वार्ह से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम	नाम	वर्तमान पद
1.	श्री बिश्वनाथ रॉय चौधरी	एसए/ई
2.	श्री शुद्धोधन शामरावजी गेडाम	एसए/डी
3.	श्री अनिल कुमार	एसए/सी
4.	श्री एन. कृष्णराजू	एसए/सी
5.	श्री दिनेश कुमार वर्मा	एसए/सी
6.	श्री अशोक कुमार	एसए/सी
7.	डा. (श्रीमती) निवेदिता प्रकाश खैरनार	एसए/डी
8.	श्रीमती जिलजु रतीष	एसए/डी
9.	श्री मानस रंजन सेनापती	एसए/सी
10.	श्रीमती चैनि सुरेश कुमार	एसए/डी
11.	श्री आमित कुमार वर्मा	एसए/डी
12.	श्री हेमन्त कुमार	एसए/डी
13.	श्रीमती अंजली हेमंत प्रभु	एसए/डी
14.	श्री रामजीत यादव	एसए/सी

शैलजा प्रकासम  
उप-स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(12)/2011/भर्ती-IV/(एसओ/डी)ईटीजी/4985--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड सी पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड डी के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में, उनके

नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाए गए तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से, इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
1.	श्री हरिमोहन ईश्वर अय्यर	01.07.2010
2.	श्री मानब रायचौधरी	01.07.2010
3.	श्री सुशील उद्दलसिंह गहेरवार	01.07.2010
4.	श्री शिव मुकुन्द	01.07.2010
5.	श्री गितेन्द्र सिंह	01.07.2010
6.	श्री निशान्त चौधरी	01.07.2010
7.	कुमारी श्रेया घटक	01.07.2010
8.	श्री प्रभात कुमार स्वाई	01.07.2010
9.	श्री सुशील कुमार	01.07.2010
10.	श्री बी. एस. आदित्य पानुगन्दी	01.07.2010
11.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	01.07.2010
12.	श्रीमती क्षमा कुंडु	01.07.2010
13.	श्री मृत्युन्जय त्यागी	01.07.2010
14.	श्रीमती सुचेता चटर्जी	06.07.2010
15.	श्री मेरूआ आदिशेषा रेड्डी	01.07.2010
16.	श्री अरविन्द तुलसीधरन तंपी	01.07.2010
17.	श्री सौमित्र दास	01.07.2010
18.	श्री अभिषेक बाजपेयी	01.07.2010
19.	श्री गौरव सिसौदिया	03.07.2010
20.	श्री ललित डागरे	01.07.2010
21.	श्री निर्भय चांदोरकर	01.07.2010
22.	श्रीमती सिल्वी ओमन	01.07.2010
23.	कुमारी उर्वशी नरेन्द्र करनानी	01.07.2010
24.	श्री विरेन्द्र सिंह ढहकवाल	01.07.2010
25.	श्री सन्दीप नायर आर.	01.07.2010
26.	श्री बी. रमेश बाबू	01.07.2010
27.	श्री अनिल बोडा	01.07.2010
28.	श्री अंशुमान वडनेरकर	01.07.2010
29.	श्री अंशुल कुमार	01.07.2010

1	2	3	1	2	3
30.	श्री गोपाल कृष्ण दास	01.07.2010	63.	श्री सौभाग्य कुमार नायक	01.07.2010
31.	श्री राहुल कृष्णा भट	01.07.2010	64.	श्री पंकज कुमार	01.07.2010
32.	श्री शिव राज सारण	01.07.2010	65.	श्री तेवके वरपोत कुषी कुरीयावकोस रेजी	01.07.2010
33.	श्री विकास तेवतिया	01.07.2010	66.	श्रीमती तुलसी ब्रिन्दा जयशंकर	01.07.2010
34.	श्री योगेश रमेशराव सगने	01.07.2010	67.	श्री दिबेन्दु बन्द्योपाध्याय	01.07.2010
35.	श्री गुरप्रताप सिंह	01.07.2010	68.	श्री शशिकान्त आर. प्रसाद	01.07.2010
36.	श्री शिशिर कुमार सिंह	01.07.2010	69.	श्री बालाजी एस.	01.07.2010
37.	श्री पंकज देब	01.07.2010	70.	श्री बालसुब्रमण्यन चातनारी	01.07.2010
38.	श्री टी. प्रभाहरन	01.07.2010	71.	श्री माडायिल वेलायुधन सुनील	01.07.2010
39.	श्री मनीष चोपड़ा	01.07.2010	72.	श्रीमती मंजुला आर	01.07.2010
40.	श्री विवेक शंकर श्रीवास्तव	01.07.2010	73.	श्री नन्द किशोर सठौर	01.07.2010
41.	श्री सौरभ कुमार नीमा	01.07.2010	74.	श्री पी. रघुकुमार	01.07.2010
42.	कुमारी शिखा श्रीवास्तव	01.07.2010	75.	श्रीमती पी. रेवती	01.07.2010
43.	श्री सौरभ मुखोपाध्याय	01.07.2010	76.	श्रीमती प्रभा देवी ना.	01.07.2010
44.	श्री हरीकुमार बी.	01.07.2010	77.	श्री पुरुषोत्तम बी.	01.07.2010
45.	श्री सुवदीप पाल	01.07.2010	78.	श्री संजय कुमार छाबड़ा	01.07.2010
46.	श्री जय प्रकाश	01.07.2010	79.	श्री राजीव कर	01.07.2010
47.	श्री रोहन अनिल फाटक	01.07.2010	80.	श्री संदीप कुमार अग्रवाल	01.07.2010
48.	श्रीमती सुमना पाल	01.07.2010	81.	श्री इंदर कुमार	01.07.2010
49.	श्री दिनेश कुमार मौर्य	01.07.2010	82.	श्री सिमेश मैथ्यू	01.07.2010
50.	श्री अमरेश कुमार दिनकर	01.07.2010	83.	कुमारी अलका गुप्ता	01.07.2010
51.	श्री सावंत सुरेश मारुती	01.07.2010	84.	डा. (श्रीमती) चित्रा विजयकृष्णन नायर	01.07.2010
52.	श्रीमती ज्योति त्रिपाठी	01.07.2010	85.	डा. (कुमारी) शिल्पा हरेश्वर मेस्त्री	01.07.2010
53.	श्रीमती सुरभि वधावन	01.07.2010	86.	श्री रूपेश कुमार चौधरी	01.07.2010
54.	श्री अशोक कुमार	01.07.2010	87.	कुमारी मीनू शर्मा	01.07.2010
55.	श्रीमती अमृता दास	01.07.2010	88.	कुमारी सरोज बिश्नोई	01.07.2010
56.	श्री निशांत नटवरलाल पटेल	01.07.2010	89.	श्री मनीष पाण्डेय	01.07.2010
57.	श्री लोकपति मिश्र	05.07.2010	90.	श्री सन्दका भानु प्रकाश	05.07.2010
58.	श्री मनीष कुमार मिश्र	01.07.2010	91.	श्री सनत कुमार पंडित	01.07.2010
59.	श्री सब्यसाची पाल	01.07.2010	92.	श्री शिव प्रसाद बेहेरा	01.07.2010
60.	श्रीमती जयश्री सी. पी	01.07.2010	93.	श्री राजेश कुमार	01.07.2010
61.	श्री कन्नन के.	01.07.2010	94.	श्री प्रदीप सामुई	01.07.2010
62.	श्री शनमूगनाथन एम.	01.07.2010	95.	श्री उमेश कुमार	01.07.2010

1	2	3	1	2	3
96.	श्री मिश्रा विवेकचन्द्र गुरुप्रसाद	01.07.2010	129.	श्री संतोष कुमार सुमन	01.07.2010
97.	श्री विनय जैन	01.07.2010	130.	श्रीमती शोभा श्याम घोडके	01.07.2010
98.	श्रीमती संहिता चौधुरी	01.07.2010	131.	कुमारी सुजाता पवन नारायणम	01.07.2010
99.	श्री सेनगुप्ता अरिजीत	01.07.2010	132.	श्रीमती नीलिमा खरे	01.07.2010
100.	श्री अभिषेक बोराना	01.07.2010	133.	कुमारी झिमली पॉल	01.07.2010
101.	श्री गौरव	01.07.2010	134.	श्री अविन चेरुवुल्लिल जोई	01.07.2010
102.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2010	135.	श्री मनोज कुमार	01.07.2010
103.	श्री बबलू मोहन लिंगडे	01.07.2010	136.	श्री राजीव गुप्ता	01.07.2010
104.	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	01.07.2010	137.	श्री मयंक कुमार गुप्ता	01.07.2010
105.	श्री कार्तिकेय कुमार यादव	01.07.2010	138.	श्री संजीव कुमार पौडेल	01.07.2010
106.	श्री संतु कैती	01.07.2010	139.	श्री बृंदावन मोदक	01.07.2010
107.	डा. राजू गोकुल करनकाले	01.07.2010	140.	श्री शक्ति कुमार मिश्रा	01.07.2010
108.	श्री रजि ए. ऐप्	05.07.2010	141.	श्री कपिल चतुर्वेदी	01.07.2010
109.	श्री सुनील कुमार	01.07.2010	142.	श्री उमेश कुमार गुप्ता	01.07.2010
110.	श्री स्वागत राजपूत	12.07.2010	143.	श्री यल्लंपल्लि राघवेन्द्र	01.07.2010
111.	श्री तेजस्वी पुरलुपाडी	01.07.2010	144.	श्री कौशिक दत्ता	01.07.2010
112.	श्री कणसे संदीप दत्तात्रय	01.07.2010	145.	श्री प्रताप रेड्डी काशिना	01.07.2010
113.	श्री अंकुर साहा	01.07.2010	146.	श्री पुरुषोत्तम झा	01.07.2010
114.	श्री रोहित कुमार	06.07.2010	147.	श्री रमेश गुरल ओचानी	01.07.2010
115.	श्री कपिल देव	01.07.2010	148.	श्रीमती रनिता बासु	01.07.2010
116.	श्री सचिन चाचरा	01.07.2010	149.	श्री रजु के.	01.07.2010
117.	श्री अनिल पत्रोस	05.07.2010	150.	श्री सुनील कुमार साहू	01.07.2010
118.	श्री मयंक अग्रवाल	01.07.2010	151.	श्री आर्या दास	01.07.2010
119.	श्री मयंक कोठियाल	01.07.2010	152.	श्री दाशरथी सरेन	01.07.2010
120.	श्री पटेल जीगर विजयकुमार	01.07.2010	153.	श्री मंगेश आत्माराम केसरकर	01.07.2010
121.	श्री रणजीत सेन	01.07.2010	154.	श्री गोविंद सिंह ठाकुर	01.07.2010
122.	श्री संजय रमेश भोले	01.07.2010	155.	श्री झरेकर हरिभाऊ श्रीपती	01.07.2010
123.	श्री विनोद केशवराव तापस	01.07.2010	156.	श्री साई वेंकट रमणा ए.	01.07.2010
124.	श्री राजीव कुमार वर्मा	01.07.2010	157.	श्री प्रशान्त लक्ष्मणराव घोडेस्वार	01.07.2010
125.	श्री रामजीभाई मावजीभाई परमार	01.07.2010	158.	श्री भांडूत प्रशांत बलवंतराय	01.07.2010
126.	श्री अनुज सोनी	01.07.2010	159.	श्री बिजु थोमस	06.07.2010
127.	श्री जगदीश भी. शिगवण	01.07.2010			
128.	श्री जिस रोमल जोस	01.07.2010			

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(24)/2009/भर्ती-IV/एसओ/ई/4991--प्रारम्भी जारी की गयी समसंख्यक अधिसूचना एवं शुद्धिपत्र क्रमशः दिनांक जुलाई 14, 2010 तथा दिनांक जून 22, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डा. के. आर. एस. चन्द्रकुमार, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड डी के पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड ई के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में, 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. पीडी/7(11)/2011/भर्ती-IV/(एसओ/ई)ईटीजी/5045-- राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड डी के पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड ई के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में, उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाए गए तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से, इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
1.	श्री अण्णय्या दुंडय्या मठपती	01.07.2010
2.	श्री धीरेन्द्र कुमार झा	01.07.2010
3.	श्री परम जीत सिंह	01.07.2010
4.	श्री चन्द्र भूषण राय	01.07.2010
5.	डा. अनूप केलकर	01.07.2010
6.	श्री बी. सुरेंद्र	01.07.2010
7.	श्री राज कुमार	01.07.2010
8.	श्री आलोक कुमार सक्सेना	01.07.2010
9.	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	01.07.2010
10.	श्री सब्यसाची मित्रा	01.07.2010
11.	श्री देसीरेड्डी दुर्गा प्रवीण कुमार	01.07.2010
12.	श्री सतेन्द्र कुमार	01.07.2010
13.	श्री अभिजीत रविंद्र टिल्लू	01.07.2010
14.	श्री दिबाकर गोस्वामी	01.07.2010
15.	श्री सौम्यादित्या मुला	01.07.2010

1	2	3
16.	श्री गुरशरण सिंह	01.07.2010
17.	श्री बालाजी प्रसाद मंडल	01.07.2010
18.	श्री धीरज जेन	01.07.2010
19.	डा. (श्रीमती) गुंजन वर्मा	01.07.2010
20.	डा. रघुमनी सिंह निथौजम	01.07.2010
21.	श्री कांचन गराई	01.07.2010
22.	श्रीमती सोमाली फणी	01.07.2010
23.	श्री चेन्न केशवुलु गुररम	01.07.2010
24.	डा. जयंत मधुकर जोशी	01.07.2010
25.	श्रीमती सुरिन्दर कौर अरोरा	01.07.2010
26.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2010
27.	श्री सुन्दर राजन शंकरन	01.07.2010
28.	श्री अभिजीत राहा	01.07.2010
29.	श्री पार्थ बैनर्जी	01.07.2010
30.	श्री रोहित शुक्ल	01.07.2010
31.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2010
32.	श्रीमती कोदै पार्थसारथी	01.07.2010
33.	डॉ. पंकज कुमार पात्र	01.07.2010
34.	श्री राज किशोर लेंका	01.07.2010
35.	श्री अमित विठ्ठलराव धर्मापुरीकर	01.07.2010
36.	श्रीमती मेनका सुखवानी	06.09.2010
37.	श्री राजित राम	01.07.2010
38.	श्री ऋद्धेश चौरसिया	01.07.2010
39.	श्री नीरव रावत	01.07.2010
40.	श्री शेषाद्री दत्तात्रेयलू दुव्वूरी	01.07.2010
41.	श्री राजेश कुमार सक्सेना	01.07.2010
42.	श्री मनोज कुमार शर्मा	01.07.2010
43.	श्रीमती संगीता धारा लेन्का	01.07.2010
44.	श्री सुमन	05.07.2010
45.	श्री कुलदीप शर्मा	01.07.2010
46.	डा. (मिस) देवदत्ता लाहिड़ी	01.07.2010
47.	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	01.07.2010
48.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	01.07.2010



1	2	3	1	2	3
49.	श्रीमती चित्रा सुब्रमनियन	01.07.2010	82.	श्री देवेश कुमार तिवारी	01.07.2010
50.	श्रीमती मिनल येसूराजा नाडार	01.07.2010	83.	श्री हेमन्त कुमार	01.07.2010
51.	श्री पवनप्रसाद श्री शर्मा	01.07.2010	84.	श्री पोपट एकनाथ सावंत	01.07.2010
52.	श्री रामन रविशंकर	01.07.2010	85.	श्री राजेश सैनी	01.07.2010
53.	श्री कारखानीस प्रसाद प्रदीप	01.07.2010	86.	श्री शशीन्द्र नाथ तिलक	01.07.2010
54.	श्री मुकुन्द कुशवाह	01.07.2010	87.	श्री म. मुहैदोन अब्दुल रज़ाक	01.07.2010
55.	श्री जनुमुल म्दु बाबू	01.07.2010	88.	श्री राजन कुमार सिंह	01.07.2010
56.	श्रीमती जेया मोहनदास	01.07.2010	89.	श्रीमती मंजुला ए. राव	01.07.2010
57.	श्री खेम चंद भारद्वाज	01.07.2010	90.	श्रीमती संध्या उष्णिक्कृष्णन	01.07.2010
58.	श्री माधवन कुट्टी वेट्टियाट्टिल कोट्टाकलतिल	01.07.2010	91.	श्री दत्तात्रय बालकृष्ण परांजपे	01.07.2010
59.	श्री रेजिमोन जोण	01.07.2010	92.	श्री नंदकुमार बंडोबा खेडेकर	01.07.2010
60.	श्री जिनेष थोमस	01.07.2010	93.	डा. अमित कुमार	01.07.2010
61.	श्री मैलवरपु भास्कर साई प्रसाद	01.07.2010	94.	श्रीमती अग्रवाल छवि	01.07.2010
62.	श्रीमती रंजना कालरा	01.07.2010	95.	श्री आलोक कुमार विश्वा	01.07.2010
63.	श्री अनुब्रता देवब्रता दास	01.07.2010	96.	श्री अर्नब दासगुप्ता	01.07.2010
64.	श्रीमती स्वाती कौट	12.07.2010	97.	श्री परिमल प्रमोद कुलकर्णी	01.07.2010
65.	श्रीमती चावली शैलजा	01.07.2010	98.	श्री योगेश कुमार उप्रेती	01.07.2010
66.	डा. (श्रीमती) काजल सचिन दलाल	01.07.2010	99.	डा. गौरव मल्होत्रा	19.07.2010
67.	डा. सतीश चन्द्र मिश्र	01.07.2010	100.	डा. (श्रीमती) स्वप्ना जयंत नाबर	01.07.2010
68.	डा. सुनील सदाशिव गंगावणे	01.07.2010	101.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2010
69.	श्री पी. डी. सुगतन	01.07.2010	102.	श्री मैसूर शंकरनारायण आनंद	01.07.2010
70.	श्री अभिषेक मुखर्जी	01.07.2010	103.	श्री कुमार राजा मच्चा	01.07.2010
71.	श्री कर्री वेंकट मणिकृष्ण	01.07.2010	104.	श्री कुमारेशन सी. एस.	01.07.2010
72.	श्री किरण कुमार एम.	01.07.2010	105.	श्री विनय कुमार मिश्र	01.07.2010
73.	डा. (श्रीमती) सोनिया चड्ढा	01.07.2010	106.	श्री रविंद्र दत्तात्रय फुलसुंदर	01.07.2010
74.	श्री सुवेन्दु मंडल	01.07.2010	107.	श्री सुकुमार लायेक	11.07.2010
75.	डा. मनोज श्रीवास्तव	01.07.2010	108.	श्रीमती क्षमा श्रीवास्तव	01.07.2010
76.	डा. सुधीर सिंह	01.07.2010	109.	श्री सुजय चटर्जी	01.07.2010
77.	श्री योगेश कुमार गुप्ता	01.07.2010	110.	श्री सुरज प्रकाश दीवान	
78.	श्री गंगाधर हुद्दार	01.07.2010	111.	डा. (कुमारी) शर्मिष्ठा दत्ता चौधरी	01.07.2010
79.	श्री शिवम मिश्रा	01.07.2010	112.	श्री चिन्ता वेंकट रायडु	01.07.2010
80.	श्री रमा शंकर श्रीवास्तव	01.07.2010	113.	श्री पार्थसारथी माइति	01.07.2010
81.	श्रीमती रमणी वेणुगोपालन	01.07.2010	114.	डा. रेमाणी बाबू मनोहरकर	01.07.2010

1	2	3
115.	श्री जोशी हितेशकुमार त्रिभोवनदास	01.07.2010
116.	श्री कृष्ण प्रसाद	01.07.2010
117.	श्री राकेश कुमार	01.07.2010
118.	श्री भुवनेश्वर गेरा	01.07.2010
119.	श्री संतोष	01.07.2010
120.	श्री नाडार येशुराजा विक्टर	01.07.2010
121.	श्री पी. श्रीनिवासन	01.07.2010
122.	श्री प्रवीन कुमार मिश्र	01.07.2010
123.	श्री शिजु वर्गीस	01.07.2010
124.	कुमारी जयश्री बिस्वाल	01.07.2010
125.	श्री अनिल जैन	01.07.2010
126.	डा. अरूप कुमार पाठक	01.07.2010
127.	श्रीमती ज्योति झा	01.07.2010
128.	श्री रामकुमार नायर	01.07.2010
129.	श्रीमती रेखू चाण्डक	01.07.2010
130.	श्री शंकर प्रसाद कईरी	01.07.2010
131.	डा. शोवित भट्टाचार्य	01.07.2010
132.	श्रीमती चन्द्रानी भट्टाचार्य	01.07.2010
133.	श्री राज कुमार	01.07.2010
134.	श्री वरदान कौशिक	01.07.2010
135.	श्री मंगेश मारुती मालुसरे	01.07.2010
136.	श्री पी. चेन्द्रा मोहन	01.07.2010
137.	श्री विनीत कुमार मित्तल	01.07.2010

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

#### परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 6(660)/77-प्रशा/खंड.II/8246--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की निजी सचिव श्रीमती लिसी जोसेफ (पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), को दिनांक 11 जुलाई 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में प्रधान निजी सचिव (पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव

सं. 6(2115)/94-प्रशा/खंड.II/8247--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की सहायक प्रशासन अधिकारी (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), श्रीमती एस. विनयलता को दिनांक 11 जुलाई 2011 की अपराह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में प्रशासनिक अधिकारी-III (पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. 6(2510)/2009-प्रशा/8307--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-), डॉ. एच. पी. नावडा को दिनांक 01 जुलाई 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक उसी विभाग में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-3, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव

#### परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

मुंबई-400094, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. पऊनिप/प्रशा./I/77/3031--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इसी परिषद् में उनके नाम के सामने उल्लिखित अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम तथा पदनाम	पदोन्नति पर ग्रेड	वेतन बैंड
1.	श्री दीपक ओझा, वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पीबी-4, रु. 37400-- 67000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
2.	श्री आर. यू. परमार, वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पीबी-4, रु. 37400-- 67000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-

एस. कृष्णन  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-एम/2011/631--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के सहायक, श्री डी. श्रीनिवास राव (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) को दिनांक 21 मार्च 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड

9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- भारी पानी संयंत्र (मण्गूरू) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय  
हैदराबाद-500629, दिनांक 26 जुलाई 2011

शुद्धिपत्र

कृपया दिनांक 30 मई, 2011 के पत्राचार सं. पखनि-16/1/95-भर्ती/वा. IV/3122 का संदर्भ लें, जो श्री वाई. मधुसूदन, सहायक को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूरु में दिनांक 13.05.2011 से सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के बारे में है।

श्री वाई. मधुसूदन के नाम को श्री वाई. मधुसूधन के रूप में पंजा जाए।

पी. मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. पखनि-8/1/2006-भर्ती/खंड-I/221--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्रीमती के. प्रेमलता, सहायक लेखाकार (वेतन बैंड रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), पखनि, हैदराबाद को दिनांक 30.05.2011 पूर्वाह्न से 29.06.2011 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी (वेतन बैंड-2, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. ए.12018/1/2009-स्था.1--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय में वायुयान इंजीनियरी निदेशालय के निम्नलिखित सहायक निदेशकों की वायुयान इंजीनियरी निदेशालय में उपनिदेशक के पद पर रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में प्रोन्नति होने पर, उनकी तदर्थ नियुक्ति को 28.06.2011 से छह माह की अवधि के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री ए. के. तिवारी
2. श्रीमती कमल महाजन
3. श्री हिल्लोल बिस्वास

तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित प्रोन्नति या वरिष्ठता आदि के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। साथ ही सरकार, संबंधित अधिकारियों को कोई कारण बताए या कोई नोटिस आदि दिए बिना उनकी तदर्थ नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।

विजय सिंह  
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री साई सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 1 मार्च 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00362--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री साई सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सेलीन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 मार्च 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेलीन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स क्रिस्वेन मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 जून 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00858--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्रिस्वेन मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इन्टरलेकन प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्टरलेकन प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स खुशबु चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/018543--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खुशबु चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शुचि क्लीनिकस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/026522--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुचि क्लीनिकस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेटल एण्ड मिनरल कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/002268--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेटल एण्ड मिनरल कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मार्स कम्प्यूटर लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/034603--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्स कम्प्यूटर लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स होरीजोन आईटिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/126568--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होरीजोन आईटिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एक्सीलेंट हाऊसकीपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560(5)/125060--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सीलेंट हाऊसकीपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मधुसूदन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560(5)/185540--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मधुसूदन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शुकराना इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560(5)/168623--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुकराना इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टेम्पल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेम्पल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एक्टिव इंटरनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 560(5)/153850--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स एक्टिव इंटरनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केन्टर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/180931--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केन्टर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केडेन्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/180933--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केडेन्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सोवर फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/दिल्ली(सीजीओ)/सैक्शन 560/2011/00113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोवर फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सेठी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/028555--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेठी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. आरओसी/560/5/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कंपनी नं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	14858	मैसर्स बी. आर. कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	25923	मैसर्स बाबा फरीद केबल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	18539	मैसर्स गोलडस्टार फार्मास्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	22733	मैसर्स खालसा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड
5.	30845	मैसर्स बाबा गारमैट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6.	19858	मैसर्स खालसा हाईड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	24771	मैसर्स यूनीक कॉटन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	14069	मैसर्स एसपैन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	25345	मैसर्स आशियाना कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	27218	मैसर्स बी. आर. जेवर प्राइवेट लिमिटेड
11.	26433	मैसर्स एच. वी. एम्ब्रोईडरी प्राइवेट लिमिटेड
12.	34060	मैसर्स श्री लालजी कपूर वर्मा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	31156	मैसर्स पीजीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
14.	32261	मैसर्स एएमएस कॉलिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
15.	32751	मैसर्स ओक्यानैट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
16.	29792	मैसर्स पैपरिका मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
17.	21761	मैसर्स एकेएस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
18.	33412	मैसर्स हरजप एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
19.	32215	मैसर्स सी. एण्ड ए. फाईनेशियल सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
20.	31323	मैसर्स भोरुका गिल पॉवर लिमिटेड
21.	30029	मैसर्स मंजू आर्ट प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 29 जुलाई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र.सं.	कंपनी नं.	कम्पनियों के नाम
1.	31173	मैसर्स रैड एप्पल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	21923	मैसर्स आर. पी. जी. प्लास्टिक्स लिमिटेड
3.	28962	मैसर्स गोलडन शील्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
4.	30431	मैसर्स मुरली सोप प्राइवेट लिमिटेड
5.	06851	मैसर्स नारंग इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	24779	मैसर्स फनल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
7.	11181	मैसर्स यूनाइटेड होम एप्लाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
8.	10082	मैसर्स सन स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	10932	मैसर्स पंजाब कोल्ड रीट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	06195	मैसर्स श्री रघुनाथ इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	23404	मैसर्स ए. जी. एजुलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	28924	मैसर्स रयाज टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह  
कंपनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ट्रांस वाटर फन लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./30132/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रांस वाटर फन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ट्रांस रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./24486/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रांस रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ट्रांस हाऊसिंग फाईनैस कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./25663/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रांस हाऊसिंग फाईनैस कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वसुधा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00099/051143/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वसुधा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आईएल एण्ड एफएस नेचुरल रिसोसिस लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00128/187106/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आईएल एण्ड एफएस नेचुरल रिसोसिस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स महाजेनको पावर जनरेशन कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड  
के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00138/174243/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महाजेनको पावर जनरेशन कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ग्लाईडर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00366/056313/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्लाईडर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सूर्याआराधना ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00431/160099/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सूर्याआराधना ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कैटनजरो इंडीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00397/199359/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैटनजरो इंडीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सम्यक इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00409/124274/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सम्यक इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हेमादिल एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00418/029897/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेमादिल एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आईटीएम टैकर मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00371/151862/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आईटीएम टैकर मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अकोला हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 00452/121671/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अकोला हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
कोलकाता-700020, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. कं.रं/प.बं./ईईएस-560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	कंपनी नं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	098426	मैसर्स श्री ओम विनियम प्राईवेट लिमिटेड
2.	103769	मैसर्स सौरभ स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	071112	मैसर्स कैसिनो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	047013	मैसर्स दीप इन्सूलेशन एण्ड रीफ्रैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
5.	078057	मैसर्स एडमायर ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड
6.	048917	मैसर्स ग्राफ्टन्स ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	105615	मैसर्स प्रीथू फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रेमो इन्फोमैट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600034, दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2011/00290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेमो इन्फोमैट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान व निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स संका ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600034, दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2011/00050--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संका ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान व निकोबार द्वीपपुंज

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## BUREAU OF POLICE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 8th August 2011

No. 3/48/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.P.S. Verma, IPS (HP:95) as Principal, Central Detective Training School, Chandigarh with effect from the forenoon of 25th July, 2011 for a period of four years or till his date of superannuation i.e. 31.12.2014, whichever event occurs the earliest on usual terms and conditions of Central Deputation.

DHANI RAM  
Asstt. Director (Admn.)

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 28th July 2011

No. O.II-5220/2011-DA-4-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri S.K. Patra, Dy. Commandant (IRLA-5220) of 141 Bn has relinquished his post on 12.07.2011 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 12.07.2011 (FN).

SANJEEV DHUNDIA  
DIGP (Pers.)

The 2nd August 2011

No. O.II-1194/74-Pers.—Consequent on acceptance of his notice for Voluntary Retirement from Government Service,

Shri T. Chandrasekharan, IG (Trg.) , Directorate General, CRPF, New Delhi (IRLA-1289) relinquished the charge of his post on 01.08.2011 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force with effect from 01.08.2011 (FN).

SANJEEV DHUNDIA  
DIG (Pers.)

No. O-II-6571/2011-Pers(DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 02.03.2011 for resignation from service, Shri Anurag Tiwari, Assistant Commandant (IRLA : 6571) of 201Bn, CoBRA, CRPF, relinquished the charge of his post on the afternoon of 30th June, 2011. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 30.06.2011 (AN).

SANJEEV DHUNDIA  
DIG (Pers.)

## DIRECTORATE GENERAL

## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, 29th July 2011

No. E-15014/1/2011/Pers.II/Vol-3/1836—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandant (Exe/JAO/Fire) and confirmed in the respective rank in respect of directly recruited Assistant Commandant (Exe), as per details given below :—

S. No.	Name	Rank	Date of promotion/ appointment as AC	Probation period completed Satisfactorily on	Date of confirmation as AC	Unit
1	2	3	4	5	6	7
	S/Shri					
1.	Bhaskar Kumar	AC/Exe.	05.07.2008	04.07.2010	05.07.2010	RHSTPP Rihand
2.	Dhananjay Shukla	AC/Exe.	05.07.2008	04.07.2010	05.07.2010	7th Res. Bn. Kishtwar
3.	Surender Kumar	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	BSL Bokaro
4.	Santosh Kumar Suman	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	SECL Bilaspur
5.	Virendra Pratap Singh	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	WCL Chhindwara
6.	Rahul Kumar	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	RAPS Kota
7.	Sankara Rao Byreddi	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NAPS Narora
8.	Man Mohan Singh Yadav	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	DAE Kalpakkam
9.	P Dearson Gaisung	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NFC Hyderabad
10.	Babu Lal	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NK & Piparwar
11.	Shekhar Ramola	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	RSP Rourkela
12.	Satyendra Kumar Jha	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NLC Neyveli

1	2	3	4	5	6	7
13.	Ashu Singhal	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	BHEL (R) Hyderabad
14.	Manjit Singh	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	TPT(T)
15.	Harendra Narayan	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	ChPT Chennai
16.	Arvind Kumar Singh	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NPT Sheva
17.	Bajaj Nilesh Ghanshyam	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	BCCL Dhanbad
18.	Ajay Singh	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	NTPC Kaniha
19.	Nitin Kumar Tyagi	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	Oil Duliajan
20.	Satyabeer Singh Aswal	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	DSP Durgapur
21.	Jog Raj	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	ECL Seetalpur
22.	S.K. Paswan	AC/Exe.	18.04.2009	17.04.2011	18.04.2011	SBSS Salakati
23.	Bijender Singh Patwal	AC/Exe.	29.05.2006	28.05.2008	—	Deputation to CEIB New Delhi from CISF unit, ASG Patna.
24.	Prabhat Ranjan Mishra	AC/Exe.	12.10.2008	11.10.2010	12.10.2010	ASG Tirupathi
25.	Mukesh Kumar	AC/Fire	02.02.2009	01.02.2011	—	BESCL Bhilai
26.	Ashok Kumar Arora	AC/JAO	20.04.2009	19.04.2011	—	GP. HQrs. Guwahati
27.	Nagendra Devrari	AC/Exe.	05.07.2008	04.01.2011	05.01.2011	SDSC SHAR Centre
28.	Khilare Satyendra P.	AC/Exe.	12.10.2008	11.04.2011	12.04.2011	DM Bn. Arakonam
29.	E Gunasekharan	AC/JAO	03.03.2008	02.03.2011	—	NLC Neyveli

Sd/- ILLEGIBLE

Director General/CISF

No. E-15014/1/2011/Pers.II/1838—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period on 30.04.2010 in respect Shri Sunil Lakra, Assistant Commandant/JAO of CISF posted at FSTI Hyderabad who was promoted on 01.05.2007.

Sd/- ILLEGIBLE

Director General/CISF

The 1st August 2011

No. E-31013/(3)2/Pers.II/2010/1845—The following Inspectors (Min/Steno) of CISF who are presently on deputation to National Security Guard, are hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Assistant Commandant/JAO in CISF in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- (revised) with effect from the date as noted against each of their name:—

S. No.	Rank	Name	Date of proforma promotion under 'Next Below Rule'
1.	Inspector/Min	A. K. Bandopadhyay	20.06.2011 (FN)
2.	Inspector/Steno	Vinod Kumar Sharma	18.06.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE

Director General/CISF

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), ORISSA

Bhubaneswar-1, the 26th July 2011

No. Admn-I-IAD-Gr. 'B'-544—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 258 dated 15.07.2011, the Pr. Accountant General, Orissa has been pleased to allow Sri Abani Kanta Patra, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from 15.07.2011 (FN) i.e. the date of taking over charge without prejudice to the claim of his seniors.

The Promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/Cat, if any. Other terms and conditions of OOC. 258 dated 15.07.2011 shall remain unchanged.

A. K. BID

Dy. Accountant General (Admn.)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

## DIRECTORATE OF MARKETING &amp; INSPECTION

Faridabad, the 3rd August 2011

No. A-19024/5/2011-A.I—Consequent upon his promotion to the post of Senior Chemist in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,200/-, Shri Sanjay Tiwari, Junior Chemist has been appointed as Senior Chemist in the Directorate of Marketing & Inspection, Central Agmark Laboratory, Nagpur with effect from 12th July 2011 (Forenoon).

M.L. SIKKA  
Under Secy.

Faridabad-121001, the 9th August 2011

## CORRIGENDUM

No. 2-12/2007-Adm.I—In this Directorate's Notification No. 2-12/2007A.I dated 07.06.2011, the entry at SN 3 may be amended to read as:—

Dr. Vishnu Dutt Nigam 17.02.2011

DILEEP RAO  
Chief Admn. Officer

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 21st July 2011

No. PD/7(13)/2011-R-IV/SO(C)/ETG/4983—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion
1	2	3
	Shri/Smt.	
1.	Kunjilal Budhuji Ballare	01.07.2010
2.	Rupesh Kumar Singh	01.07.2010
3.	Vinayak Ramesh Sonar	01.07.2010
4.	Ajit Narayan Shirsat	01.07.2010
5.	Basant Kumar Das	01.07.2010
6.	Chettiamparambil Sankaran Dileep	01.07.2010
7.	Smt. Manisha Ravindra Lokhande	01.07.2010

1	2	3
8.	Nitin Maurti Sinalkar	01.07.2010
9.	Arjun Sarkar	01.07.2010
10.	Veeturi Narasimha Nath	01.07.2010
11.	Smt. Dimple Verma	02.08.2010
12.	Nalini Ranjan Mishra	01.07.2010
13.	Ramsubbu Muthalappan	01.07.2010
14.	S. Premalatha	01.07.2010
15.	Sivakumar K.S.	01.07.2010
16.	Venkatesan C.	01.07.2010
17.	Ashwani Kumar Sharma	01.07.2010
18.	Sanjay Kumar Pal	02.07.2010
19.	E. Muthu	01.07.2010
20.	Abhay Vasant Patil	01.07.2010
21.	Bootharajan Muthiah	01.07.2010
22.	Balu Narayan Shinde	01.07.2010
23.	Anil Kumar Ahirwar	01.07.2010
24.	Priyanka Jagdish Reddy	01.07.2010
25.	Sumathi Ellappan	01.07.2010
26.	Ajay Kumar	01.07.2010
27.	Shivaji Ramdas Shendge	08.07.2010
28.	Pankaj Shankarrao Damke	01.07.2010
29.	Ajay Kumar Gangyan	01.07.2010
30.	Hemangi Vijay Kumar Gaikwad	01.07.2010
31.	Neerukonda Sankararao	01.07.2010
32.	Kum. Vidya Shreedhar Thorat	01.07.2010
33.	Sinu Chandran	01.07.2010

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Ref: PD/7(13)/2011-R-IV/SO(C)/ETG/4984—The President is pleased to appoint the undermentioned officials of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2010, in an officiating capacity until further order :—

S.No.	Name	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Biswanath Roy Chowdhury	SA/E
2.	Shri Shudhodhan Shamraoji Gedam	SA/D

1	2	3
3.	Shri Anil Kumar	SA/C
4.	Shri N. Krishnaraju	SA/D
5.	Shri Dinesh Kumar Verma	SA/C
6.	Shri Ashok Kumar	SA/C
7.	Dr. (Smt.) Nivedita Prakash Khairnar	SA/D
8.	Smt. Jilju Ratheesh	SA/D
9.	Shri Manas Ranjan Senapati	SA/C
10.	Smt. Shiny Suresh Kumar	SA/D
11.	Shri Amit Kumar Verma	SA/D
12.	Shri Hemant Kumar	SA/D
13.	Smt. Anjali Hemant Prabhu	SA/D
14.	Shri Ramjit Yadav	SA/C

SHAILJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(12)/2011-R.IV/SO(D)/ETG/4985—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' Pay Band of Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion
1	2	3
1.	Shri Harimohan Eswar Iyer	01.07.2010
2.	Shri Manab Raychaudhuri	01.07.2010
3.	Shri Sushil Uddalsingh Gaherwar	01.07.2010
4.	Shri Sheo Mukund	01.07.2010
5.	Shri Gitender Singh	01.07.2010
6.	Shri Nishant Chaudhary	01.07.2010
7.	Kum. Shreya Ghatak Sarkar	01.07.2010
8.	Shri Pravat Kumar Swain	01.07.2010
9.	Shri Sushil Kumar	01.07.2010
10.	Shri V.S. Aditya Panuganti	01.07.2010
11.	Shri Krishna Kumar Singh	01.07.2010
12.	Smt. Kshama Kundu	01.07.2010
13.	Shri Mrityunjay Tyagi	01.07.2010

1	2	3
14.	Smt. Sucheta Chatterjee	06.07.2010
15.	Shri Meruva Adishesha Reddy	01.07.2010
16.	Shri Aravind Thulsidharan Thampi	01.07.2010
17.	Shri Soumitra Das	01.07.2010
18.	Shri Abhishek Bajpai	01.07.2010
19.	Shri Gaurav Sisaudiya	03.07.2010
20.	Shri Lalit Dagre	01.07.2010
21.	Shri Nirbhay Chandorkar	01.07.2010
22.	Smt. Silvi Oommen	01.07.2010
23.	Kum. Urvashi Narendra Karnani	01.07.2010
24.	Shri Virender Singh Dhakwal	01.07.2010
25.	Shri Sandeep Nair R.	01.07.2010
26.	Shri B. Ramesh Babu	01.07.2010
27.	Shri Anil Boda	01.07.2010
28.	Shri Anshuman Wadnerkar	01.07.2010
29.	Shri Ansul Kumar	01.07.2010
30.	Shri Gopal Krushna Das	01.07.2010
31.	Shri Rahul Krishna Bhat	01.07.2010
32.	Shri Shiv Raj Saran	01.07.2010
33.	Shri Vikas Teotia	01.07.2010
34.	Shri Yogesh Rameshrao Sagane	01.07.2010
35.	Shri Gurpartap Singh	01.07.2010
36.	Shri Shishir Kumar Singh	01.07.2010
37.	Shri Pankaj Deb	01.07.2010
38.	Shri T. Prabakaran	01.07.2010
39.	Shri Manish Chopra	01.07.2010
40.	Shri Vivek Shanker Srivastava	01.07.2010
41.	Shri Saurabh Kumar Neema	01.07.2010
42.	Kum. Shikha Srivastava	01.07.2010
43.	Shri Sourav Mukhopadhyay	01.07.2010
44.	Shri Harikumar V.	01.07.2010
45.	Shri Suvadip Pal	01.07.2010
46.	Shri Jai Prakash	01.07.2010
47.	Shri Rohan Anil Phatak	01.07.2010
48.	Smt. Sumana Paul	01.07.2010
49.	Shri Dinesh Kumar Maurya	01.07.2010
50.	Shri Amresh Kumar Dinkar	01.07.2010
51.	Shri Sawant Suresh Maruti	01.07.2010

1	2	3	1	2	3
52.	Smt. Jyoti Tripathi	01.07.2010	87.	Kum. Meenu Sharma	01.07.2010
53.	Smt. Surbhi Wadhawan	01.07.2010	88.	Kum. Saroj Bishnoi	01.07.2010
54.	Shri Ashok Kumar	01.07.2010	89.	Shri Manish Pandey	01.07.2010
55.	Smt. Amrita Das	01.07.2010	90.	Shri Sandaka Bhanu Prakash	05.07.2010
56.	Shri Nishant Natvarlal Patel	01.07.2010	91.	Shri Sanat Kumar Pandit	01.07.2010
57.	Shri Lokpati Mishra	05.07.2010	92.	Shri Shiba Prasad Behera	01.07.2010
58.	Shri Manish Kumar Mishra	01.07.2010	93.	Shri Rajesh Kumar	01.07.2010
59.	Shri Sabyasachi Paul	01.07.2010	94.	Shri Pradeep Samui	01.07.2010
60.	Smt. Jayasree Chandrasekharan Nair Puthezhathu	01.07.2010	95.	Shri Umesh Kumar	01.07.2010
61.	Shri Kannan Kesavan	01.07.2010	96.	Shri Mishra Vivekchandra Guruprasad	01.07.2010
62.	Shri Shunmuganathan M.	01.07.2010	97.	Shri Vinay Jain	01.07.2010
63.	Shri Soubhagya Kumar Nayak	01.07.2010	98.	Smt. Sanhita Chaudhury	01.07.2010
64.	Shri Pankaj Kumar	01.07.2010	99.	Shri Sengupta Arijit	01.07.2010
65.	Shri Thekke Verapothu Kuzhi Kuriakose Reji	01.07.2010	100.	Shri Abhishek Borana	01.07.2010
66.	Smt. Thulasi Brinda Jayasankar	01.07.2010	101.	Shri Gaurav	01.07.2010
67.	Shri Dibyendu Bandyopadhyay	01.07.2010	102.	Shri Narender Kumar Sharma	01.07.2010
68.	Shri Shashikant R. Prasad	01.07.2010	103.	Shri Babalu Mohan Lingade	01.07.2010
69.	Shri Balaji S.	01.07.2010	104.	Shri Jitendra Kumar Pandey	01.07.2010
70.	Shri Balasubramanian Chathanari	01.07.2010	105.	Shri Kartikey Kumar Yadav	01.07.2010
71.	Shri Madayil Velayudhan Sunil	01.07.2010	106.	Shri Santu Kaity	01.07.2010
72.	Smt. Manjula R.	01.07.2010	107.	Dr. Raju Gokul Karankale	01.07.2010
73.	Shri Nand Kishore Rathore	01.07.2010	108.	Shri Reji A. IPE	05.07.2010
74.	Shri P. Raghukumar	01.07.2010	109.	Shri Sunil Kumar	01.07.2010
75.	Smt. P. Revathi	01.07.2010	110.	Shri Swagat Rajput	12.07.2010
76.	Smt. Praba Devi N.	01.07.2010	111.	Shri Tejaswi Poorlupadi	01.07.2010
77.	Shri Purushotham B.	01.07.2010	112.	Shri Kanse Sandeep Dattatrata	01.07.2010
78.	Shri Sanjay Kumar Chhabda	01.07.2010	113.	Shri Ankur Saha	01.07.2010
79.	Shri Rajib Kar	01.07.2010	114.	Shri Rohit Kumar	06.07.2010
80.	Shri Sandeep Kumar Agarwalla	01.07.2010	115.	Shri Kapil Deo	01.07.2010
81.	Shri Inder Kumar	01.07.2010	116.	Shri Sachin Chachra	01.07.2010
82.	Shri Simesh Mathew	01.07.2010	117.	Shri Anil Pathrose	05.07.2010
83.	Kum. Alka Gupta	01.07.2010	118.	Shri Mayank Agarwal	01.07.2010
84.	Dr. (Smt.) Chitra Vijaya Krishnan Nair	01.07.2010	119.	Shri Mayank Kothiyal	01.07.2010
85.	Dr. (Kum.) Shilpa Hareshwar Maistry	01.07.2010	120.	Shri Patel Jigar Vijaykumar	01.07.2010
86.	Shri Rupesh Kumar Choudhary	01.07.2010	121.	Shri Ranjit Sen	01.07.2010
			122.	Shri Sanjay Ramesh Bhole	01.07.2010
			123.	Shri Vinod Keshav Rao Tapas	01.07.2010

1	2	3
124.	Shri Rajeev Kumar Verma	01.07.2010
125.	Shri Ramjibhai Mavjibhai Parmar	01.07.2010
126.	Shri Anuj Soni	01.07.2010
127.	Shri Jagdish B. Shigwan	01.07.2010
128.	Shri Jis Romal Jose	01.07.2010
129.	Shri Santosh Kumar Suman	01.07.2010
130.	Smt. Shobha Shyam Ghodke	01.07.2010
131.	Kum. Sujatha Pavan Narayanam	01.07.2010
132.	Smt. Neelima Khare	01.07.2010
133.	Kum. Jhimli Paul	01.07.2010
134.	Shri Abin Cheruvullil Joy	01.07.2010
135.	Shri Manoj Kumar	01.07.2010
136.	Shri Rajiv Gupta	01.07.2010
137.	Shri Shri Mayank Kumar Gupta	01.07.2010
138.	Shri Sanjeev Kumar Poudel	01.07.2010
139.	Shri Brindaban Modak	01.07.2010
140.	Shri Shakti Kumar Mishra	01.07.2010
141.	Shri Kapil Chaturvedi	01.07.2010
142.	Shri Umesh Kumar Gupta	01.07.2010
143.	Shri Yellampalli Raghavendra	01.07.2010
144.	Shri Kaushik Dutta	01.07.2010
145.	Shri Prathap Reddy Kasina	01.07.2010
146.	Shri Purushottam Jha	01.07.2010
147.	Shri Ramesh Gural Ochani	01.07.2010
148.	Smt. Ranita Basu	01.07.2010
149.	Shri Reju K.	01.07.2010
150.	Shri Sunil Kumar Sahu	01.07.2010
151.	Shri Arya Das	01.07.2010
152.	Shri Dasarathi Saren	01.07.2010
153.	Shri Mangesh Atmaram Kesarkar	01.07.2010
154.	Shri Govind Singh Thakur	01.07.2010
155.	Shri Zarekar Haribhau Shripati	01.07.2010
156.	Shri Sai Venkata Ramana A.	01.07.2010
157.	Shri Prashant Laxmanrao Ghodeswar	01.07.2010
158.	Shri Bhandut Prashant Bal Vantrai	01.07.2010
159.	Shri Biju Thomas	06.07.2010

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(24)/2009-R-IV/(SO/E)/4991.—In supersession of Notification and Corrigendum of even number dated July 14, 2010 and June 22, 2011 respectively, the President is pleased to appoint Dr. K. R. S. Chandrakumar, Scientific Officer/Engineer Grade 'D' Pay Band Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2009 in an officiating capacity, until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 25th July 2011

No. PD/7(11)/2011-R-IV/SO(E)/ETG/5045.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/Engineers Grade 'D' Pay Band Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under Column 3 against each, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Shri Annayya Dundayya Mathapati	01.07.2010
2.	Shri Dharendra Kumar Jha	01.07.2010
3.	Shri Param Ject Singh	01.07.2010
4.	Shri Chandra Bhushan Rai	01.07.2010
5.	Dr. Anoop Kelkar	01.07.2010
6.	Shri Bommisetty Surendra	01.07.2010
7.	Shri Raj Kumar	01.07.2010
8.	Shri Alok Kumar Saxena	01.07.2010
9.	Shri Gaurav Kumar Pandey	01.07.2010
10.	Shri Sabyasachi Mitra	01.07.2010
11.	Shri Desireddy Durga Praveen Kumar	01.07.2010
12.	Shri Satendra Kumar	01.07.2010
13.	Shri Abhijit Ravindra Tillu	01.07.2010
14.	Shri Dibakar Goswami	01.07.2010
15.	Shri Soumyaditya Mula	01.07.2010
16.	Shri Gursharn Singh	01.07.2010
17.	Shri Balaji Prasad Mandal	01.07.2010
18.	Shri Dheeraj Jain	01.07.2010



1	2	3	1	2	3
19.	Dr. (Smt.) Gunjan Verma	01.07.2010	56.	Smt. Jaya Mohandas	01.07.2010
20.	Dr. Raghumani Singh Ningthoujam	01.07.2010	57.	Shri Khem Chand Bhardwaj	01.07.2010
21.	Shri Kanchan Garain	01.07.2010	58.	Shri Madhavan Kutty Vettiyattil Kottakalathil	01.07.2010
22.	Smt. Somali Mukherjee Phani	01.07.2010	59.	Shri Rejimone John	01.07.2010
23.	Shri Chenna Keshavulu Gurram	01.07.2010	60.	Shri Jinesh Thomas	01.07.2010
24.	Dr. Jayant Madhukar Joshi	01.07.2010	61.	Shri Mylavarapu Bhaskara Sai Prasad	01.07.2010
25.	Smt. Surinder Kaur Arora	01.07.2010	62.	Smt. Ranjna Kalra	01.07.2010
26.	Shri Ravindra Kumar Sharma	01.07.2010	63.	Shri Anubrata Devabrata Das	01.07.2010
27.	Shri Sundar Rajan Sankaran	01.07.2010	64.	Smt. Swathi kota	12.07.2010
28.	Shri Abhijit Raha	01.07.2010	65.	Smt. Chavali Shailaja	01.07.2010
29.	Shri Partha Banerjee	01.07.2010	66.	Dr. (Smt.) Kajal Sachin Dalal	01.07.2010
30.	Shri Rohit Shukla	01.07.2010	67.	Dr. Satish Chandra Mishra	01.07.2010
31.	Shri Surender Kumar Sharma	01.07.2010	68.	Dr. Sunil Sadashiv Gangawane	01.07.2010
32.	Smt. Kothai Parthasarathy	01.07.2010	69.	Shri P. D. Sugathan	01.07.2010
33.	Dr. Pankaj Kumar Patro	01.07.2010	70.	Shri Abhishek Mukherjee	01.07.2010
34.	Shri Raja Kishora Lenka	01.07.2010	71.	Shri Karri Venkata Mani Krishna	01.07.2010
35.	Shri Amit Vithalrao Dharmapurikar	01.07.2010	72.	Dr. Kiran Kumar M.	01.07.2010
36.	Smt. Menka Sukhwani	06.09.2010	73.	Dr. (Smt.) Sonia Chadha	01.07.2010
37.	Shri Rajit Ram	01.07.2010	74.	Shri Suvendu Mondal	01.07.2010
38.	Shri Reetesh Chaurasia	01.07.2010	75.	Dr. Manoj Shrivastava	01.07.2010
39.	Shri Neerav Rawat	01.07.2010	76.	Dr. Sudhir Singh	01.07.2010
40.	Shri Sheshadri Dattatreyyulu Duvvuri	01.07.2010	77.	Shri Yogesh Kumar Gupta	01.07.2010
41.	Shri Rajesh Kumar Saxena	01.07.2010	78.	Shri Gangadhar Huddar	01.07.2010
42.	Shri Manoj Kumar Sharma	01.07.2010	79.	Shri Shivam Mishra	01.07.2010
43.	Smt. Sangita Dhara Lenka	01.07.2010	80.	Shri Rama Shankar Shrivastaw	01.07.2010
44.	Shri Suman	05.07.2010	81.	Smt. Ramani Venugopalan	01.07.2010
45.	Shri Kuldeep Sharma	01.07.2010	82.	Shri Devesh Kumar Tiwari	01.07.2010
46.	Dr. (Ms.) Debdutta Lahiri	01.07.2010	83.	Shri Hemant Kumar	01.07.2010
47.	Shri Krishan Kumar Pandey	01.07.2010	84.	Shri Popat Eknath Sawant	01.07.2010
48.	Shri Kailash Chand Gupta	01.07.2010	85.	Shri Rajesh Saini	01.07.2010
49.	Smt. Chitra Subramanian	01.07.2010	86.	Shri Saseendra Nath Thilak	01.07.2010
50.	Smt. Minal Yesuraja Nadar	01.07.2010	87.	Shri M. Mohideen Abdul Razak	01.07.2010
51.	Shri Pavanprasad S. Sharma	01.07.2010	88.	Shri Rajan Kumar Singh	01.07.2010
52.	Shri Raman Ravishankar	01.07.2010	89.	Smt. Manjula A. Rao	01.07.2010
53.	Shri Karkhanis Prasad Pradip	01.07.2010	90.	Smt. Sandhya Unnikrishnan	01.07.2010
54.	Shri Mukund Kushwah	01.07.2010	91.	Shri Dattatraya Balkrishna Paranjape	01.07.2010
55.	Shri Janumula Madhu Babu	01.07.2010	92.	Shri Nandakumar Bandoba Khedekar	01.07.2010

1	2	3
93.	Dr. Amit Kumar	01.07.2010
94.	Smt. Agarwal Chhavi	01.07.2010
95.	Shri Alok Kumar Vishnoi	01.07.2010
96.	Shri Arnab Dasgupta	01.07.2010
97.	Shri Parimal Pramod Kulkarni	01.07.2010
98.	Shri Yogesh Kumar Upreti	01.07.2010
99.	Dr. Gaurav Malhotra	19.07.2010
100.	Dr. (Smt.) Swapna Jayant Nabar	01.07.2010
101.	Shri Surendra Kumar Sharma	01.07.2010
102.	Shri Mysore Shankaranarayana Ananda	01.07.2010
103.	Shri Kumar Raja Macha	01.07.2010
104.	Shri Kumaresan C. S.	01.07.2010
105.	Shri Vinay Kumar Misra	01.07.2010
106.	Shri Ravindra Dattatray Phulsundar	01.07.2010
107.	Shri Sukumar Layek	11.07.2010
108.	Smt. Kshama Srivastava	01.07.2010
109.	Shri Sujoy Chatterjee	01.07.2010
110.	Shri Suraj Prakash Dewan	07.07.2010
111.	Dr. (Kum.) Sharmishtha Dutta Choudhury	01.07.2010
112.	Shri Chinta Venkata Rayudu	01.07.2010
113.	Shri Partha Sarathi Maity	01.07.2010
114.	Dr. Remani Babu Manolkar	01.07.2010
115.	Shri Joshi Hiteshkumar Tribhovandas	01.07.2010
116.	Shri Krishna Prasad	01.07.2010
117.	Shri Rakesh Kumar	01.07.2010
118.	Shri Bhuvaneshwar Gera	01.07.2010
119.	Shri Santhosh	01.07.2010
120.	Shri Nadar Yesuraja Victor	01.07.2010
121.	Shri P. Srinivasan	01.07.2010
122.	Shri Praveen Kumar Mishra	01.07.2010
123.	Shri Shiju Varghese	01.07.2010
124.	Kum. Jayashree Biswal	01.07.2010
125.	Shri Anil Jain	01.07.2010
126.	Dr. Arup Kumar Pathak	01.07.2010
127.	Smt. Jyoti Jha	01.07.2010
128.	Shri Ramkumar Nair	01.07.2010

1	2	3
129.	Smt. Rekhu Chandak	01.07.2010
130.	Shri Shankar Prasad Koiry	01.07.2010
131.	Dr. Shovit Bhattacharya	01.07.2010
132.	Smt. Chandrani Bhattacharya	01.07.2010
133.	Shri Raj Kumar	01.07.2010
134.	Shri Vardan Kaushik	01.07.2010
135.	Shri Mangesh Maruti Malusare	01.07.2010
136.	Shri P. Chandra Mohan	01.07.2010
137.	Shri Vinit Kumar Mittal	01.07.2010

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 28th July 2011

No. 6(660)/77-Adm./Vol.II/8246—The President is pleased to appoint Smt. Lissy Joseph, Private Secretary (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/-), DAE, as Principal Private Secretary in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from the forenoon of July 11, 2011 until further orders.

V. GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

No. 6(2115)/94-Adm./8247—The President is pleased to appoint Smt. S. Vinayalatha, Assistant Administrative Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/-), DAE as Administrative Officer-III (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the afternoon of July 11, 2011 until further orders.

V. GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

The 29th July 2011

No. 6(2510)/2009-Adm./8307—The President is pleased to appoint Dr. H. P. Nawada, Scientific Officer/F (PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-), Department of Atomic Energy to officiate as Scientific Officer/G in the Pay Band Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- in the same Department with effect from the forenoon of July 01, 2011, until further orders.

V. GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

## ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 2nd August 2011

No. AERB/Adm./1/77/3031—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from the forenoon of 01.07.2011 until further orders :—

Sl. No.	Name and Designation	Grade of Promotion	Pay Band (Rs.)
1.	Shri Deepak Ojha, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4 : Rs. 37,400— 67,000 + Grade Pay Rs. 8,900/-
2.	Shri R. U. Parmar, Scientific Officer (F)	Scientific Officer (G)	PB-4 : Rs. 37,400— 67,000 + Grade Pay Rs. 8,900/-

S. KRISHNAN  
Chief Administrative Officer

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 29th July 2011

No. HWB/R/1(8)-M/2011/631—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri D. Srinivas Rao, Assistant in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 21st March, 2011 until further orders.

K. V. PILLAI  
Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500629, the 26th July 2011

## CORRIGENDUM

Ref. No. AMD-16/1/95-Rectt./Vol. IV/3122—dated 30th May 2011 regarding appointment of Shri Y. Madhusudan, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Southern Region, Bengaluru with effect from the forenoon of 13.05.2011.

The name of Shri Y. Madhusudan may please be read as 'Shri Y. Madhusudhan'.

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative & Accounts Officer

The 27th July 2011

No. AMD-8/1/2006-Rectt./Vol. I/221—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department

of Atomic Energy hereby appoints Smt. K. Premalatha, Assistant Accountant (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/-), AMD, Hyderabad as Assistant Accounts Officer (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 30.05.2011 to 29.06.2011.

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL  
AVIATION

New Delhi-110003, the 2nd August 2011

No. A-32013/7/2009-E-I.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following Assistant Directors of Aircraft Engineering Directorate in the Office of Director General of Civil Aviation, on their promotion to the post of Deputy Director in the Aircraft Engineering Directorate in scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- beyond 28.06.2011 for a period of six months or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri A. K. Tewari
2. Smt. Kamal Mahajan
3. Shri Hillol Biswas

The ad hoc appointment will not confer on them any right for regular promotion or for seniority etc. Further, the Government reserves the right to terminate their ad hoc appointment without assigning any reason or giving any notice etc. to the officers concerned.

VIJAYSINGH  
Dy. Dir. of Administration

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Sai Surveyors Private Limited

New Delhi-110019, the 1st March 2011

No. 560(3)/MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/00362—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Sai Surveyors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saline Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 24th March 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/  
00093—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Saline Trading Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krisven Manufacturing Private Limited

New Delhi-110019, the 14th June 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/  
00858—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Krisven Manufacturing Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interlaken Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4th July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/  
00359—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Interlaken Promoters Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Khushboo Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Khushboo Chits Private Limited has this day  
been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Shuchi Clinics Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the  
name of M/s. Shuchi Clinics Private Limited has this day  
been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Metal and Mineral Corporation Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the  
name of M/s. Metal and Mineral Corporation Private Limited  
has this day been struck off the register and the said company  
is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Mars Computer Learning Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the  
name of M/s. Mars Computer Learning Private Limited has  
this day been struck off the register and the said company is  
dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Horizon Ites Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Horizon Ites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Excellent Housekeeper Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excellent Housekeeper Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Madhusudan Infratech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madhusudan Infratech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Shukrana Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/168623—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shukrana Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tepple Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 14th July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/00223—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tepple Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Active International India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th July 2011

No. 560(5)/153850—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Active International India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Canter Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/180931—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Canter Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Cadence Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/180933—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cadence Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sower Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/00113—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sower Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sethi Plastic Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/028555—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sethi Plastic Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 29th July 2011

No. RoC/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	14858	M/s. B. R. Computers Private Limited
2.	25923	M/s. Baba Farid Cable Networks Private Limited
3.	18539	M/s. Goldstar Pharmaceuticals Private Limited
4.	22733	M/s. Khalsa Hytech Private Limited
5.	30845	M/s. Bawa Garments (India) Private Limited
6.	19858	M/s. Khalsa Hydraulics Private Limited

1	2	3
7.	24771	M/s. Unique Cotton Products Private Limited
8.	14069	M/s. Aspen Investments Private Limited
9.	25345	M/s. Ashiana Colonisers Private Limited
10.	27218	M/s. B. R. Zever Private Limited
11.	26433	M/s. H. V. Embroidery Private Limited
12.	34060	M/s. Shri Lalji Kapoor Verma Marketing Private Limited
13.	31156	M/s. PGA Project Management Services Private Limited
14.	32261	M/s. AMS Calling Services Private Limited
15.	32751	M/s. Octanet Infotech Private Limited
16.	29792	M/s. Peprika Marketing Private Limited
17.	21761	M/s. A. K. S. Marketing Private Limited
18.	33412	M/s. Harjap Advisory Services Private Limited
19.	32215	M/s. C & A Financial Services (India) Private Limited
20.	31323	M/s. Bhoruka Gill Power Limited
21.	30029	M/s. Manju Art Printers Private Limited

RAJ SINGH

Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 29th July 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	31173	M/s. Red Apple Hotels and Resorts Private Limited
2.	21923	M/s. R. P. G. Plastics Limited
3.	28962	M/s. Golden Shield Trading Private Limited
4.	30431	M/s. Murli Soap Private Limited

1	2	3
5.	06851	M/s. Narang Impex Private Limited
6.	24779	M/s. Fanal Infotech Private Limited
7.	11181	M/s. United Home Appliances Private Limited
8.	10082	M/s. Sun Spinning Mills Private Limited
9.	10932	M/s. Punjab Cold Retreds Private Limited
10.	06195	M/s. Shree Raghunath Electronics Private Limited
11.	23404	M/s. A. G. Edulinks Private Limited
12.	28924	M/s. Rayaz Tour & Travels Private Limited

RAJ SINGH  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Trans Water Fun Limited

Ahmedabad-380013, the 4th August 2011

No. RoC/10813/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trans Water Fun Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Trans Real Estate Private Limited

Ahmedabad-380013, the 4th August 2011

No. RoC/10816/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trans Real Estate Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Trans Housing Finance Corporation Limited

Ahmedabad-380013, the 4th August 2011

No. RoC/10819/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trans Housing Finance Corporation Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vasudha Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00099/600—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vasudha Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. IL&FS Natural Resources Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00128/656—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. IL&FS Natural Resources Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahagenco Power Generation Consultancy  
Services Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00138/657—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahagenco Power Generation Consultancy Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glider Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00366/658—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Glider Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumasi Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00242/  
662—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumasi Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leymco Advisory Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00057/  
646—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Leymco Advisory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indo EMU Farm Products Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00076/  
647—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indo EMU Farm Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. APT Rubber Works Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00220/  
648—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. APT Rubber Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Omega Investrade Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00255/  
649—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Omega Investrade Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Excellent Marine Services Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00333/  
650—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Excellent Marine Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lohotwo Tools Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00389/  
651—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name



of M/s. Lohotwo Tools Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suryaaradhana Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00431/  
652—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Suryaaradhana Trading Company Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Catanzaro Integrated Waste Management Private  
Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00397/  
653—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Catanzaro Integrated Waste Management Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off the register and the said Company will be  
dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samyak Information Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00409/  
654—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Samyak Information Systems Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hemadil and Co. Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00418/  
655—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Hemadil and Co. Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ITM Tanker Management Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00371/  
659—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. ITM Tanker Management Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akola Hospital Private Limited

Mumbai-400002, the 2nd August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00452/  
661—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Akola Hospital Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata-700020, the 2nd August 2011

No. RoC/WB/EES/2011—Notice is hereby given  
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies  
Act, 1956 that the name of the following Companies have

this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	098426	M/s. Casino Traders Private Limited
2.	047013	M/s. Deep Insulation & Refractory Private Limited
3.	078057	M/s. Shree Om Vinimoy Private Limited
4.	103769	M/s. Soarbh Steels Private Limited
5.	071112	M/s. Admire Tracon Private Limited
6.	048917	M/s. Graftons Trading & Engineering Private Limited
7.	105615	M/s. Prithu Foods Private Limited

HARIHARA SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Remo Infomatrix Private Limited  
Chennai-600034, the 1st August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2011/00290—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Remo Infomatrix Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanka Graphics Private Limited

Chennai-600034, the 1st August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2011/00050—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanka Graphics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands